## प्रपत्र ''क'' Form "A"

## कोयला खान भविष्य निधि COAL MINES PROVIDENT FUND

(कोयला खान में नियोजित व्यक्ति द्वारा घोषणा) (Declaration by person employed in a Coal Mine)

1.	नाम : (स्पष्ट अक्षरों में)	1	0. जन्म तिथि	(शब्दों में)	
	Name		The state of the s	pirth (in words)	
	(In block capitals)		दिन	महीना	-
2.	लिंग			month	ব
	Sex		り 1. पहचान का	 : चित्र	у
3.	जाति अथवा उपनाम			पहचान का चिन्ह Marks of Identification	
	Caste or Surname	1	2. स्थायी पता	identification	
4.	धर्म		200 - 10 20 1000 2000 11513000	Permanent Address	
	Religion			nt Address	
5.	पेशा	***********	डाकघर Post Offic		
	Occupation			e	
6.	ऊंचाई		ग्राम		
	Height	= = =			
7.	पिता का नाम	************	थाना		
	Father's Name		Police Stat	tion	
8.	पति का नाम (विवाहित महिलाओं के संबंध में)		जिला		
	Husband's Name		District		********
		**********	प्रदेश अथवा		
9.	वैवाहिक स्थिति (For married women)		Province or	State	********************
A100					
	Marital Status	C 12:			
	(क्या अधिवाहित, अविवाहिता, विवाहित, विधवा अथवा (Whether bachelor, spinster, married, widow or	विधुर ह?)	8		
	( The bachelot, Spinster, married widow or )	ation assessment (1)			
100 10000 - 100	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय:	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि	म व्यक्ति/व्यक्तिय	ों को उनके नाम के सामने द	र्शायी गयी राशि के
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a I/my ward's credit in the Coal Mines Provident Fu	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि	म व्यक्ति/व्यक्तिय	ां को उनके नाम के सामने द	र्शायी गयी राशि के
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fundamer shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or No	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि	म व्यक्ति/व्यक्तिय	ां को उनके नाम के सामने द	र्शायी गयी राशि के direct that the ar following person निध के संचय से दी ा अथगा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the a following person निध के संचय से दी । अथगा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the a following perso निध के संचय से दी । अथगा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the a following perso निध के संचय से दी । अथगा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the a following perso निध के संचय से दी । अथवा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the a following perso निध के संचय से दी । अथवा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the a following person निध के संचय से दी । अथगा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the ar following person निध के संचय से दी । अथवा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the ar following person निध के संचय से दी । अथवा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the ar following person निध के संचय से दी ा अथवा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the ar following person निध के संचय से दी ा अथवा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the ar following person निध के संचय से दी ा अथगा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the ar following person निध के संचय से दी । अथवा अंश cumulations in t
भुगता of my	में घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरा आश्रित पूर्व में कोयला खान में जमा मेरी/मेरे आश्रित की राशि मेरी/मेरे आश्रित की मृत्यु न की जाय: I declare that I have/my ward has not previously a my ward's credit in the Coal Mines Provident Fullianner shown against their names:  नामजद व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) Name and address of the nominee or nominees	भविष्य निधि का सदर हो जाने के समय नि a member of the C nd at the time of n जिंद व्यक्ति का सदस्य के साथ संबंध minee's relation	म्न व्यक्ति/व्यक्तिय oal Mines Prov ny/my ward's d नामजद व्यक्ति की उम्र Age of	vident Fund and I hereby leath shall be paid to the नामजद व्यक्ति को नि जानेवाली राशि Amount of Share ac	र्शायी गयी राशि के direct that the ar following person निध के संचय से दी ा अथवा अंश cumulations in t

दिनांक Date नियोजित व्यक्ति अथवा उसके अभिभावक का हस्ताक्षर अथवा बायें हाथ के अंगूठे का निशान Signature or left hand thumb impression of the person employed or his guardian मैं एतद द्वारा निर्देश देता हूँ कि मेरे उपरोक्त नामजद व्यक्ति/व्यक्तियों के आवश्यकता की अवधि में मेरी मृत्यु हो जाने की अवस्था में कोयला खान भविष्य निधि योजना का प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति को जिनका विवरण नीचे दिया गया है उपरोक्त नामजद व्यक्ति का अभिभावक समझा जाय।

I hereby direct that in the event of my death during the minority of my above named nominee(s) the person whose particulars are given below shall be deemed to be the guardian of the minor nominee(s) for the purpose of the Coal Mines Provident Fund scheme

अभिभावक का नाम और पता Name and address of the Guardian	अभिभावक की उम्र Age of the Guardian	अभिभावक का सदस्य के साथ संबंध Relationship of the Guardian with the member
		**
The state of the s		
Certified that the above declaration has been signed by/b in my Coal Mine before me after he has read the entries/the	y the guardian ofentries have been read over	er to him by me.
		बंधक अथवा अन्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	5	Signature of the Manager or other Officer
	पदनाम Desigr	astion
	Design	iation
कोयला खान की पंजीयन संख्या		कोयला खान का नाम और पता Name & Address of the Coal Mine
Regd. No. of Coal Mine	•	reame & Address of the Coal Mine
देनांक		
Date		
CCL Press 1367/11-12—30 Pads of 100 Lvs.		